



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2017/ ज्येष्ठ 24, 1939

No. 485]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2017/ JYAISTHA 24, 1939

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

का.आ. 587(अ).— जबकि “हाइड्रोजन पेराक्साइड” (एतदपश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतदपश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2847 00 00 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो बंगलादेश, ताइवान, कोरिया आर पी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड (एतदपश्चात विषयगत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलतः उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/3/2015-डीजीएडी, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

- (i) भारत को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात, उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए गए हैं (इंडोनेशिया को छोड़कर);
- (ii) संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है;
- (iii) संबद्ध देशों (इंडोनेशिया को छोड़कर) से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है।

जबकि, पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देशों से मूलतः उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का

51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

| क्रस. | टैरिफ मद | वस्तु विवरण | उद्गम देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | राशि | मुद्रा | मापन की इकाई |
|-------|----------|----------------------|---|---|---|--------------------------|--------|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | बंगलादेश | बंगलादेश | मेसर्ज सामुडा केमिकल्स | मेसर्ज सामुडा केमिकल्स | 46.90 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 2 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | बंगलादेश | बंगलादेश | तसनीम केमिकल्स | तसनीम केमिकल्स | 27.81 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 3 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | बंगलादेश | बंगलादेश | एएसएम केमिकल्स | एएसएम केमिकल्स | 46.29 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 4 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | बंगलादेश | बंगलादेश | उपरोक्त क्रमांक 1,2 और 3 में उल्लिखितसे भिन्न अन्य कोई संयोजन | | 91.47 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 5 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | बंगलादेश | पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | कोई | कोई | 91.47 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 6 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | बंगलादेश | कोई | कोई | 91.47 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 7 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाकिस्तान | पाकिस्तान | सितारा पिरोक्सी लिमिटेड | सितारा पिरोक्सी लिमिटेड | 51.91 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 8 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाकिस्तान | पाकिस्तान | डेस्कोन ओक्सीकेम लिमिटेड | डेस्कोन ओक्सीकेम लिमिटेड | 61.05 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 9 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाकिस्तान | पाकिस्तान | उपरोक्त क्रमांक 7 और 8 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन | | 117.94 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 10 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाटनरोधीशुल्क के अध्यक्षीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | पाकिस्तान | कोई | कोई | 117.94 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|---|---|--|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| 11 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाकिस्तान | पाटनरोधीशुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | कोई | कोई | 117.94 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 12 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | थाइलैंड | थाइलैंड | दि पिरोक्सी लिमिटेड | दि पिरोक्सी लिमिटेड | 16.91 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 13 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | थाइलैंड | थाइलैंड | उपरोक्त क्रमांक 12 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन | | 63.32 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 14 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | थाइलैंड | कोई | कोई | 63.32 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 15 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | थाइलैंड | पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | कोई | कोई | 63.32 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 16 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | कोरिया | कोरिया | कोई | कोई | 46.15 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 17 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | कोरिया | पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | कोई | कोई | 46.15 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 18 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | कोरिया | कोई | कोई | 46.15 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 19 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | ताइवान | ताइवान | कोई | कोई | 56.33 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 20 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | ताइवान | पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | कोई | कोई | 56.33 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |
| 21 | 28470000 | हाइड्रोजन पेराक्साइड | पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश | ताइवान | कोई | कोई | 56.33 | अमरीकी डालर | मीट्रिक टन |

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में

विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है।

(फा. सं. 354/232/2016-टीआरयू)

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 14th June, 2017

No. 28 /2017-Customs (ADD)

S.O. (E). 587.— Whereas, in the matter of import of Hydrogen Peroxide (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the tariff item 2847 00 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea RP, Indonesia, Pakistan and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/3/2015-DGAD, dated the 11th April, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th April, 2017 has come to the conclusion that—

- the subject goods have been exported to India from the subject countries (other than Indonesia) below its normal value;
- the domestic industry has suffered material injury; and
- the injury has been caused by the dumped imports from subject countries (other than Indonesia); and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject countries (other than Indonesia).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table:—

TABLE

| Sl. No. | Tariff Item | Description on of goods | Country of origin | Country of export | Producer | Exporter | Amount | Currency | Unit |
|---------|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 28470000 | Hydrogen Peroxide (other than of food grade and electronic grade having concentration of 90% and above) | Bangladesh | Bangladesh | M/s. Samuda Chemicals | M/s. Samuda Chemicals | 46.90 | US Dollar | Metric Ton |
| 2 | 28470000 | Do | Bangladesh | Bangladesh | Tasnim Chemicals | Tasnim Chemicals | 27.81 | US Dollar | Metric Ton |
| 3 | 28470000 | Do | Bangladesh | Bangladesh | ASM Chemicals | ASM Chemicals | 46.29 | US Dollar | Metric Ton |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----|--|--|---|----------------------------|--------|-----------|------------|
| 4 | 28470000 | Do | Bangladesh | Bangladesh | Any combination other than mentioned in S.N. 1,2 and 3 above | | 91.47 | US Dollar | Metric Ton |
| 5 | 28470000 | Do | Bangladesh | Any country other than those subject to antidumping duty | Any | Any | 91.47 | US Dollar | Metric Ton |
| 6 | 28470000 | Do | Any country other than those subject to antidumping duty | Bangladesh | Any | Any | 91.47 | US Dollar | Metric Ton |
| 7 | 28470000 | Do | Pakistan | Pakistan | M/s. Sitara Peroxide Ltd. | M/s. Sitara Peroxide Ltd. | 51.91 | US Dollar | Metric Ton |
| 8 | 28470000 | Do | Pakistan | Pakistan | Descon Oxychem Ltd. | Descon Oxychem Ltd. | 61.05 | US Dollar | Metric Ton |
| 9 | 28470000 | Do | Pakistan | Pakistan | Any combination other than those mentioned in S.N 7 and 8 above | | 117.94 | US Dollar | Metric Ton |
| 10 | 28470000 | Do | Any country other than those subject to antidumping duty | Pakistan | Any | Any | 117.94 | US Dollar | Metric Ton |
| 11 | 28470000 | Do | Pakistan | Any country other than those subject to antidumping duty | Any | Any | 117.94 | US Dollar | Metric Ton |
| 12 | 28470000 | Do | Thailand | Thailand | M/s. Thai Peroxide Co Ltd. | M/s. Thai Peroxide Co Ltd. | 16.91 | US Dollar | Metric Ton |
| 13 | 28470000 | Do | Thailand | Thailand | Any combination other than mentioned in S.No12 above | | 63.32 | US Dollar | Metric Ton |
| 14 | 28470000 | Do | Any country other than those subject to antidumping duty | Thailand | Any | Any | 63.32 | US Dollar | Metric Ton |
| 15 | 28470000 | Do | Thailand | Any country other than those subject to antidumping duty | Any | Any | 63.32 | US Dollar | Metric Ton |
| 16 | 28470000 | Do | Korea | Korea | Any | Any | 46.16 | US Dollar | Metric Ton |
| 17 | 28470000 | Do | Korea | Any country other than those subject to antidumping duty | Any | Any | 46.16 | US Dollar | Metric Ton |
| 18 | 28470000 | Do | Any country other than those subject to | Korea | Any | Any | 46.16 | US Dollar | Metric Ton |

| | | | antidumping duty | | | | | | |
|----|----------|----|---|---|-----|-----|-------|--------------|---------------|
| 19 | 28470000 | Do | Taiwan | Taiwan | Any | Any | 56.33 | US Dollar | Metric Ton |
| 20 | 28470000 | Do | Taiwan | Any country other than those subject to antidumping duty | Any | Any | 56.33 | US Dollar | Metric Ton |
| 21 | 28470000 | Do | Any country other than those subject to antidumping duty | Taiwan | Any | Any | 56.33 | US Dollar | Metric Ton |

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/232/2016 –TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.